

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life

9

2020

VOL. 180

Founder's Essay

यह सब निर्भर करता है कि आप कैसे पूछते हैं

कोई व्यक्ति कितना भी प्रवीण क्यों न है, उसकी क्षमता की सीमा है। उदाहरण के लिए, आप दस या सौ साथियों का सहयोग के बिना एक बड़ी परियोजना को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन यह जानकर भी, कुछ लोगों को दूसरों को काम सौंपना या उनकी सहायता लेना गवारा नहीं लगता है।

ये लोग शायद सोचते हैं कि सबकुछ स्वयं करना उतना तनावपूर्ण नहीं है, जितना कि दूसरों को अपने लिए कुछ करने को देकर उनके अप्रिय भौंह भंगिमा का समाना करना या अंडे के खोल पर चलना है। लेकिन वास्तव में, वे अपने सिर को पानी के ऊपर रखने के लिए संघर्ष करते हैं, अकेले काम का खामियाजा भुगतते हैं। ऐसे व्यक्ति को उनके सहकर्मी क्या कहते हैं? वे केवल यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब तक वे स्वयं सब कुछ नहीं करते हैं, वे संतुष्ट नहीं होते हैं।

जब आप किसी दूसरे को सहायता करने कहते हैं, तो यह उन्हें विश्वसनीय और उपयोगी होने से मिलने वाली खुशी देने का अवसर है। यह महत्वपूर्ण है आप उनकी मदद के लिए कैसे कहते हैं। आप किस तरह सहायता के लिए कहते हैं, यदि उसमें आपके अनुरोध की झलक है तो वह प्रेरित करने का प्रोत्साहन हो सकता है या आदेश का

भाव है, जो जबरदस्ती महसूस कराकर उनका मनोबल गिराता है।

पैनासोनिक के संस्थापक कोनोसुके मात्सुशिता (1894-1989) ने अपनी पुस्तक, केवल रोटी के लिए नहीं: यह व्यापार का स्वाभाव है, प्रबन्धन का नियम है (*Not for Bread Alone: A Business Ethos, A Management Ethic*) में लिखा है “शायद इसलिए कि मेरे पास बहुत कम औपचारिक शिक्षा थी, मुझे उनकी उपलब्धियों और कौशल की प्रशंसा करके उन्हें प्रेरित करता हूँ। मुझे अपने कर्मचारियों पर भरोसा है कि वे क्या जानते हैं और उनके पास क्या है। इसलिए जब मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं उनमें से एक को बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। किसी को पता है कि जिस पर आपको भरोसा है, वह आपके लिए अथक कोशिश करेगा और आखिरकार सफल होगा।”

किसी पर भरोसा करना और उसकी सहायता लेना भी दूसरों के बुद्ध-स्वभाव का सम्मान करने का तरीका है।

निक्क्यो निवानो, काइसो जुइकान 9 (कोसेइ प्रकाशन, 1997),

पीपी. 256-257

Living the Lotus
Vol. 180 (September 2020)

Senior Editor: Koichi Saito
Editor: Eriko Kanao
Copy Editor: Parmita Shekhar

Living the Lotus is published monthly
by Rishso Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

रिश्शो कोसेईकाई गृहस्थों की संस्था है जिसका पवित्र ग्रन्थ सद्धर्म पुण्डरीक सूत्र एवं अन्य दो लघु सूत्रों का संकलन है। इस संस्था को संस्थापक निक्क्यो निवानो एवं सह-संस्थापक म्योको नागानुमा ने सन् १९३८ ई० में स्थापित किया था। यह उन साधारण स्त्रियों एवं पुरुषों की संस्था है जिन्हें बुद्ध में श्रद्धाविश्वास है तथा जो बुद्ध के उपदेशों के अनुसार चलते हुए अपने आध्यत्मिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं।

प्रेसिडेण्ट का दिशानिर्देश निचिको निवानो, के अन्तर्गत हम देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर शान्ति एवं कल्याण के लिये तत्पर होकर परोपकार के कार्य में सलग्न हैं।

“लिविंग द लोटस: बुद्धिज्म इन एवरीडे लाइफ” का उद्देश्य यह दर्शाना है कि जैसे सरोवर के कीचड़ से निकलकर कमल खिलता है वैसे ही पुण्डरीक सूत्र की शिक्षा का दैनिक जीवन में अनुशरण के प्रयास से हमारा जीवन समृद्ध बनता है, हमारा जीना सार्थक होता है। इसका संस्करण के माध्यम से दुनियाँ में लोगों के दैनिक जीवन में बौद्धधर्म की शिक्षा को सरल बोधगम्य बनाना है।



व्यक्ति के मन का साथ में उदास होना

निचिको निवानो

प्रेसिडेण्ट, रिशशो कोसेइ काइ


दूसरों की उदासी को अपना समझना

मैं, फुकुशिमा प्रीफेक्चर के हाई स्कूल में जापानी भाषा के कवि और शिक्षक रियोइची वागो की कविता "साथ में" की कुछ पंक्तियाँ साझा करने के साथ, आरंभ करता हूँ:

आपके आँसू, मुझे सिखाते,
बातें, लोग कमजोर हैं
लोग दुःखी हैं, लोग दुःख देते हैं,
हालाँकि, गर्मी है:
लोग, लोगों के बारे में सोचते हैं
लोग, लोगों को प्यार करते हैं
लोग, लोगों के लिए रोते हैं
आप और मैं दोनों, अकेले हैं
लेकिन, आप और मैं दोनों
साथ साथ रह रहे हैं।

जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, जिसे दर्दनाक अनुभव हुआ है और वह दुःखी है। तो हमें इस कविता में जैसा वर्णित है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए, उसके साथ रोना चाहिए, या उसके लिए उत्साहजनक शब्द बोलना और उसका हाथ पकड़कर कहना चाहिए, "किसी भी समय आपको हमारी जरूरत हो, हम यहाँ आपके लिए तैयार रहेंगे।" हम अन्य लोगों की पीड़ा के साथ सहानुभूति रखने में सक्षम हैं, क्योंकि हम एक कोमल एवं संवेदनशील हृदय के साथ पैदा हुए हैं, वैसा हृदय अन्य जानवरों में नहीं है।

मुझे लगता है कि यह समानुभूति विकसित होती जाती है, क्योंकि हम जीवित प्राणी आयु बढ़ने, बीमार होने और मृत्यु का सामना करने के साथ आने वाली दर्दनाक, दुःखद भावनाओं का अनुभव करते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, जिनमें श्रद्धाविश्वास है, तो आप अन्य लोगों के कष्टों और दुःखों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आपको अपना ही लग सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि गणितज्ञ कियोशी ओका (1901-78) के शब्दों में "धर्म का सार है, दूसरों के दुःखों को समझना है और स्वयं भी उनके दुःखों का अनुभव करना है।"





यह सार हमें पुण्डरीक सूत्र के परिवर्त-16: "तथागत का शाश्वत जीवन" की अंतिम पंक्तियों, में मिलता है: "किस प्रकार मैं इन जीवों को परम बोधि में प्रवेश कराऊँ जिससे उनको सत्वर बुद्धत्व की प्राप्ति हो।"

अपने और दूसरों में बुद्ध-प्रकृति का चित्रण

हर साल 7 या 8 सितंबर के आसपास हाकुरो ("सफेद ओस") नामक दिन आता है। यह नाम सुबह की ओस से आया है, जो फूलों और पौधों के रूप में उभरता है। ओस की बून्दें सूर्य की रोशनी में चमकती हैं, लेकिन इनमें भी क्षणभंगुरता की छाप है, जैसा कि जापानी में स्पष्ट है, "यह संसार ओस की बून्दें हैं।"

हालाँकि, परिवर्त-16 की ऊपर की पंक्तियाँ हमें बुद्ध की सबसे उत्साही इच्छा से अवगत कराती हैं और आशा दिलाती हैं। हालाँकि हम एक ऐसे अनित्य संसार में रहते हैं, जो लगता है कि ओस की तरह क्षणभंगुर है, कोई भी दुःख में सदा नहीं रहता है और हर कोई अपने बुद्ध-स्वभाव के लिए जागरूक है और कष्टों से मुक्त है। इसके अलावा, यह हमें दिखाता है कि हम सभी बोधिसत्व हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य लोगों की सहायता करना है।

शाक्यमुनि और शुद्धिपंथक की प्रसिद्ध किंवदंती में एक दर्दनाक दुर्गति में पड़े की सहायता करने का एक अच्छा उदाहरण मिलता है।

शुद्धिपंथक की याददाश्त बिल्कुल खराब है। वह भिक्षु के रूप में प्रशिक्षण मिलने के बाद भी धर्मदेशना की एक पंक्ति भी याद नहीं रख सका। उसके बड़े भाई ने, जो पहले ही शाक्यमुनि का शिष्य बन चुका था, यह कहकर झिड़क दिया कि उसे छोड़ कर चला जाना चाहिए। हालाँकि, शाक्यमुनि ने देखा कि शुद्धिपंथक दुःख में खो गया है और अपनी मूर्खता का शोक मना रहा है। इसलिए उन्होंने शुद्धिपंथक को झाड़ू दे दिया और कहा कि वह प्रतिदिन आस-पास के क्षेत्र की सफाई करे और जप करते हुए बोले, "धूल को दूर करो, दोषों को दूर करो।"


समय के साथ, शुद्धिपंथक को ये शब्द याद हो गये। उसे अनुभव हुआ और मन को साफ करने के महत्व से प्रभावित था। वह शाक्यमुनि का एक सम्मानित शिष्य बनकर उभरा।

शुद्धिपंथक का मन मुक्त हो गया और शाक्यमुनि की महान करुणा और समानुभूति पाकर उसका दुःख और उसकी निराशा खुशी में बदल गयी। शाक्यमुनि ने शुद्धिपंथक के बुद्ध स्वभाव में एकनिष्ठ विश्वास कर उसकी सहायता की।

पूर्व में, मैंने "अनित्य" संसार का उल्लेख किया है, लेकिन हमने लगातार जीवन प्राप्त किया है और फिर परिनिर्वाण में प्रवेश कर गया है। इस जन्म और मृत्यु के चक्र में, हम यहाँ और अब जीवित हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पिछले अनुभवों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें समाहित हैं, हम बुद्ध के रूप में एक ही शाश्वत जीवन जी रहे हैं।

हम सभी के लिए क्या सार्वभौम है - किसमें अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं - अपरिवर्तनीय सार है: बुद्ध-प्रकृति। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम एक-दूसरे से उस तरह बातचीत करें, जो हमारे और दूसरों के बुद्ध-स्वभाव को आगे लाते हैं, विशेषकर इसलिए कि हमारी प्रथाएँ दुःख से पीड़ित लोगों को खुशी प्रदान कर सकती हैं।

From Kosei, September 2020.



समेकित त्रिविध पुण्डरीक सूत्रः प्रत्येक अध्याय का सारांश एवं मुख्य बिन्दुयें

सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र अध्याय 17: गुणों की विशिष्टता (2)

विश्वास के चार चरण और अभ्यास के पाँच चरण

चीन के थियेनथाइ के सबसे बड़े आचार्य चि-इ (538-97), जिन्हें “माउंट थियेनथाइ के महान शिक्षक” के रूप में भी जाना जाता है, ने इस अध्याय के सार को सहज ही समझा और यादगार रूप में दिया है: विश्वास के चार चरण और अभ्यास के पाँच चरण। दोनों विश्वास करनेवाले की मानसिक तैयारी का वर्णन करते हैं।


विश्वास के चार चरण, या, अधिक सटीक रूप से, बुद्ध के जीवनकाल के दौरान पुण्डरीक सूत्र में विश्वास के अभ्यास के चार तरीके, इस सोच से उत्पन्न होते हैं कि पुण्डरीक सूत्र की शिक्षा को आदर्श अभ्यास के चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। हालाँकि ये चरण मूल रूप से बुद्ध के जीवनकाल में रहने वालों के लिए थे, लेकिन वे आज भी समान रूप से लागू होते हैं।

आस्था का पहला चरण आ रहा है, लेकिन यह विश्वास और विवेक का विचार है। यह मानना और समझना महत्वपूर्ण है। बुद्ध का जीवन काल अनन्त है, इसके लिए भी सभी चीजों की अंतिम वास्तविकता को समझना है। यह स्व-भाव की महान छलांग है।

दूसरा चरण आम तौर पर बुद्ध के वचनों के निहितार्थ को उनके अनंत जीवन के संबन्ध में समझना है। यहाँ हमें देशना के निहित गंभीर अर्थ की व्यापक प्रशंसा के लिए बुद्ध के अनन्त जीवन की समझ से परे एक कदम बढ़ाना है। जिस तरह बुद्ध का जीवन शाश्वत और अविनाशी है, उसी तरह हमारा अपना जीवन भी बुद्ध के साथ एकीकृत है। केवल इसलिए कि हम इन भ्रान्तियों के बादल में खो गए हैं, हम उसे नहीं देखते हैं। यदि हम एक-एक करके इन भ्रान्तियों के बादल को दूर करते हैं, तो हम अनुभव करेंगे कि हम बुद्ध के साथ पूरी तरह से एकीकृत हैं।

तीसरा चरण मोटे तौर पर दूसरों के लिए सूत्र का विस्तार में व्याख्या करना है। यह एक विश्वास करनेवाले का चरण है, जो बुद्ध के जीवन की अनन्तता की सामान्य समझ से एक कदम आगे निकल गया है। यहाँ हम पुण्डरीक सूत्र के व्यापक शिक्षा को सीखना है, इसे अपने मन में दृढ़ता से स्थापित करना है, और शिक्षा के लिए समर्पण और आभार व्यक्त करना है। इस चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अनेक लोगों को शिक्षा को सुनने के लिए प्रेरित करना और बुद्ध मार्ग की ओर उनका मार्गदर्शन करना है।

चौथा चरण, गहन विश्वास और संवेदनशील विवेक की पूर्णता




है। इसका आशय यह है कि बुद्ध के अनन्त जीवन में विश्वास और समझ का गहराने के साथ, विश्वास करनेवाले को बुद्ध की निरंतर उपस्थिति का अहसास हो जाता है। इससे बुद्ध की देशना के अनुरूप जीवन और जगत के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और विश्वास करनेवाले को अब इस देशना में आनन्द के साथ रहने की क्षमता आ जाती है।

अभ्यास का पाँचवाँ चरण, जिसे पाँच श्रेणियाँ भी कहा जाता है, बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरान्त प्रचलन में आया, और विश्वास करनेवाले के यथोचित आचरण और आचरण से संबंधित पाँच गुणों का वर्णन करता है।

अभ्यास के पहले चरण में सूत्र पर प्रारंभ में आनन्द उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि बुद्ध के जीवन का बौद्धिक समझ रखने के बजाय विश्वास करनेवाले को आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करना चाहिए। यह विश्वास है, जिसकी विस्तार में व्याख्या आगे का परिवर्तः “अनुमोदनापुण्यनिर्देश” में हुआ है।

इसके बाद सूत्र का पढ़ना और पाठ करना आता है। मात्र सूत्र पर प्रारंभ से आनन्दित होने से, किसी को सच्चा विश्वास प्राप्त हुआ कहा जा सकता है, और विश्वास करनेवाला एकाग्र मन से सूत्र का




अध्ययन कर और पढ़कर एवं पाठकर एक कदम आगे बढ़ता है।

तीसरा चरण दूसरों के लिए धर्म की विवेचना करना है। जैसा कि विश्वास करनेवाला वास्तव में बुद्ध की देशना के मूल्य को सूत्र को पढ़ने और पढ़ने के माध्यम से समझना प्रारंभ करता है। यह स्वाभाविक हो सकता है कि वह दूसरों को इसके विषय में बताने के लिए एक बलवती इच्छा रखता है। दूसरों को बताने में, विश्वास करनेवाला स्वयं में सुधार लाता है और उसकी योग्यता बढ़ती है, जैसे जैसे वह दूसरों को सिखाता है और उनमें उच्चतर बदलाव आता है।

चौथा चरण छःपारमिताओं का अभ्यास करना है, जिसमें दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान, और ज्ञान हैं। सभी को एक समय ही ग्रहण करना और धारण करना, पढ़ना और पाठ करना और धर्म की व्याख्या करना है। इन अभ्यासों को साथ साथ करने के लिए, विश्वास करनेवाले का मन बोधिसत्व की स्थिति में होना चाहिए जो उच्च स्तर की ओर क्रियाशील रहता है।

अंत में, पाँचवाँ चरण छह पारमिताओं का प्राथमिक अभ्यास है, और उन्हें ऊँच और परिष्कृत करने पर जोर देना है। सभी अभ्यासों के इस चरण की प्राप्ति के साथ, विश्वास करने वाले बुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के समीप हैं।

यह उस पाठ का हिंदी अनुवाद है जिसका जापानी मूल होक्के सानबुक्क्यो: काकु होन नो आरामासी तो योतेन (समेकित त्रिविध पुण्डरीकसूत्रः प्रत्येक परिवर्त का सारांश और मुख्य बिंदुएँ) में संस्थापक निक्क्यो निवानो के नाम प्रकाशित है, (कोसेइ प्रकाशन, 1991, संशोधित संस्करण, 2016), पीपी.176-80.



बुद्ध-प्रकृति में अपने विश्वास के साथ अनुकम्पा का सामंजस्य

10 सितंबर को रिश्शो कोसेइ काइ सह-संस्थापक म्योको नागानुमा का वार्षिक स्मारक दिवस मनाएगा। उस दिन, हम श्री नागानुमा के प्रमुख गुणों को याद करेंगे, जिन्होंने संस्थापक निक्क्यो निवानो के साथ रिश्शो कोसेइ काइ की स्थापना में सहभागी बने और उनके मिशन को आगे बढ़ाया। उस दिन भी, हम स्वयं करुणा के अभ्यास का संकल्प लेंगे।

अपनी पुस्तक, *मेरे पिता, मेरे शिक्षक*, में प्रेसिडेण्ट निचिको निवानो लिखते हैं, "म्योको सेंसेइ का सम्पूर्ण जीवन महाकरुणा से ओतप्रोत था।"

इस महीने के अपने संदेश में, "द माइंड ऑफ वीडिंग सैड टुगेदर", प्रेसिडेण्ट निवानो ने शाक्यमुनि बुद्ध के बारे में एक कहानी साझा की। वे अपने शिष्य शुद्धिपन्थक के पास गए, जो अपनी मूर्खता पर विलाप कर रहा था और उसे बुद्ध-स्वभाव पर दृढ़ता से विश्वास करने में उसकी मदद की। प्रेसिडेण्ट निवानो ने हमें प्रार्थना करने का महत्व सिखाया है कि हर कोई अपने बुद्ध-स्वभाव के प्रति जागृत रहे और स्वयं को दुःख से मुक्त रखे। साथ ही दूसरों को बुद्ध की आध्यात्मिक स्थिति में लाने के लिए आवश्यक समर्थन के रूप में सेवा करते हुए।

यह महीना सह-संस्थापक नागानुमा का अनुकरण करने का समय है, जिन्होंने जीवन भर अनुकम्पा का अभ्यास किया है। जब भी हम लोगों के साथ उनके बुद्ध-स्वभाव में विश्वास की बात करते हैं, तो हमें अनुकम्पा रखने की कोशिश करनी है।


रेव. कोइची साइतो

निदेशक, रिश्शो कोसेइ काइ इंटरनेशनल





Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org
URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Risho Kosei-kai South Asia Division

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Risho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Risho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Risho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Risho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Risho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Risho Kosei-kai of Singapore

Risho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Risho Kosei-kai International of South Asia

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Bangkok

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairisho@gmail.com

Risho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Risho Kosei-kai of Polonnaruwa

Risho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Risho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Risho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Risho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Risho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Risho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Risho Kosei-kai Friends in Shanghai

Risho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Risho Kosei-kai of Erdenet

Risho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Risho Kosei-kai of the UK

Risho Kosei-kai of Paris

Risho Kosei-kai of Venezia

Risho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibe-rk.org>